

वर्किंग Washington ग्रांट्स : राउंड 4 प्रोग्राम

29^{वें} मार्च से 9^{वें} अप्रैल तक आवेदन करें

आवेदन सहायता उपलब्ध है!

आवेदन करने के लिए कृपया विजिट करें <https://commercegrants.com>

उद्देश्य : लाभ-कमाने के लिए बने छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए धन प्रदान करना, विशेष रूप से उनको, जिनको सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के कारण बंद करने की जरूरत पड़ी थी।

पात्रता : लाभ-कमाने के लिए बने ऐसे छोटे व्यवसाय, जो भौतिक स्थानों (किसी के घर से अलग) वाले हों और 2019 में सकल राजस्व \$25,000 से \$5 मिलियन रहा हो।

फंडिंग की प्राथमिकताएं :

- ✓ ऐसे व्यवसाय जिनको सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के कारण बंद करना आवश्यक था
- ✓ ऐसे व्यवसाय जिनको बंदी के परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ
- ✓ ऐसे व्यवसाय जिनका खर्च संचालन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बढ़ गया था
- ✓ ऐसे व्यवसाय जिनका स्वामित्व और संचालन ऐतिहासिक तौर पर वंचित व्यक्तियों के पास है
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में धन का समान वितरण

आवेदन की अवधि :

- ✓ ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 29th मार्च की सुबह खुलेगा
- ✓ आवेदन 9th अप्रैल के शाम 5:00 बजे Pacific Daylight Time (पैसिफिक डेलाइट टाइम, PDT) तक स्वीकार किए जाएंगे
- ✓ आवेदन करने के लिए कृपया विजिट करें <https://commercegrants.com>

आवेदन सहायता उपलब्ध है!

➤ ई-मेल commercegrants@submittable.com

➤ अंग्रेजी कॉल सेंटर (855) 602-2722:

सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक, शनिवार और रविवार को दोपहर बाद 1 बजे से शाम 5 बजे तक।

➤ बहुभाषी कॉल सेंटर (206) 333-0720

(एम्हरिक, अरबी, अंग्रेजी, मंदारिन, रूसी, सोमाली, स्पेनिश, तागालोग और वियतनामी)।

सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक, शनिवार और रविवार को दोपहर बाद 1 बजे से शाम 6 बजे तक।

➤ विश्वसनीय सामुदायिक दूतों से हमारे रेजिलिएंसि साथी संगठनों के माध्यम से तकनीकी सहायता

<https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted-community-messengers/>

आवश्यक दस्तावेज :

- भरे गए 2019 टैक्स रिटर्न (फेडरल) की प्रति
- 2020 टैक्स रिटर्न (फेडरल) की प्रति, अगर भरा हो
- यदि 2020 के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो व्यवसाय के स्वामी को वार्षिक सकल राजस्व की राशि का अनुमान लगाना और सत्यापित करना चाहिए.
- Washington (WA) स्टेट यूनिफाइड बिजनेस आइडेंटिफायर नंबर (यूबीआई, UBI)

आदिवासी सदस्य के स्वामित्व वाले बिना UBI वाले व्यवसाय वैकल्पिक व्यवसाय सत्यापन प्रदान कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके व्यवसाय का लाइसेंस अच्छी स्थिति में है, यह वेबसाइट देखें:

<https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed>

- Federal Employer Identification Number (फेडरल इम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, EIN), यदि लागू हो
- सरकार द्वारा जारी वैध फोटो ID
- यदि ग्रांट दी जाती है तो W-9 फॉर्म अवश्य भरना होगा।

आवेदन करने के लिए पात्र नहीं निम्नलिखित प्रकार के व्यवसाय और संगठन इस ग्रांट प्रोग्राम के लिए पात्र नहीं हैं:

ऐसे व्यवसाय, जो हैं

- वयस्क व्यवसाय (लंपट यौन प्रकृति का)
- कृषि और मत्स्य उत्पादक (जैसे किसान और पशुपालक)
- चाइल्ड केयर प्रदाता (बहलाव/ मनोरंजन शामिल नहीं)
- वित्तीय कंपनियां (बैंक, वित्त और फैक्ट्रिंग कंपनियां)
- अस्पताल / स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (मालिश / हड्डी वैद्य या काइरोप्रेक्टर्स जैसी व्यक्तिगत सेवाएं पात्र हैं)
- गांजा (मारिजुआना) / भांग से जुड़े काम
- परोक्ष व्यवसाय (पैसिव बिजनेस), (निवेश कंपनियां और निवेशक जो Internal Revenue Service (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, IRS) में शेड्यूल ई (Schedule E) फाइल करते हैं)
- मुख्य रूप से राजनीतिक या खेमेबाजी गतिविधियों में संलग्न व्यवसाय
- शिकारी व्यवसाय (रेंट-टू-ऑन व्यवसाय और चेक कैशिंग व्यवसाय)
- पेशेवर सेवाएं (लेखा, बीमा, कानूनी, वित्तीय सेवाएं/ फर्म, आर्किटेक्ट आदि)
- संपत्ति प्रबंधन / रियल एस्टेट
- सट्टा कारोबार

- सरकारी संस्थाएं या निर्वाचित अधिकारियों के कार्यालय
- पुस्तकालय
- गैर-लाभकारी व्यवसाय या संगठन
- स्कूल (Pre-kindergarten (प्री-के, Pre-K), K-12 और उच्च शिक्षा)

- ताजा/लंबित मुकदमों में सक्रिय रूप से संलग्न व्यवसाय
- दिवालियापन की घोषणा की संभावना तलाश रहे व्यवसाय
- फेडरल सरकार द्वारा मनाही वाले व्यवसाय
- ऐसे व्यवसाय जिनमें मार्च 2020 तक अनुपालन या विनियामक समस्याएं मिली हों
- गवर्नर द्वारा जारी किसी भी कोविड-19-संबंधित आदेश का उल्लंघन करते पाए गए व्यवसाय इसमें तब खुला रहना जब बंद करने का आदेश दिया गया हो, या व्यवसाय पर लागू कोविड-19 स्वास्थ्य या सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना शामिल है।
- ऐसे व्यवसाय जो स्थायी रूप से बंद हो गए हैं या 2021 में स्थायी रूप से बंद होने का इरादा रखते हैं
- ऐसे व्यवसाय, जो नियमों के चलते क्षमता या आयु प्रतिबंधों के अलावा किसी अन्य कारण से संरक्षण को प्रतिबंधित करते हैं